

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 17.01.2023\***

**\*थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी विभाग टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गैर प्रान्तीय अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कोडा रेपिड कार बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक अभियुक्त को गैर प्रान्तीय अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया गया ।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 16.01.2023 की रात्रि आबकारी टीम व थाना रजबपुर पुलिस द्वारा जोया टोल पर चैकिंग के दौरान स्कोडा रेपिड रजि0 न0 UK06AP 4004 से अवैध शराब की तस्करी कर रहे अभियुक्त कुनाल ग़ोवर पुत्र रविन्द्र पाल निवासी ग्राम गदरपुर उधमसिंह नगर उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गाडी में छिपाकर रखी हुई 60 बोटल (सीवाश रिगल, जैगर मिस्टर, ग्रेगूस वोदका, ब्लैक लेबल) हरियाणा मार्का गैर प्रान्तीय शराब बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रजबपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

पूछताछ पर अभियुक्त कुनाल ग़ोवर द्वारा अवैध रूप से धन अर्जन करने के लिए गैर प्रान्त हरियाणा से खरीदकर तस्करी कर यूपी में उंचे दामों में बेच देना बताया गया ।



**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*:-**

1. कुनाल ग़ोवर पुत्र रविन्द्र पाल निवासी ग्राम गदरपुर उधमसिंह नगर उत्तराखंड ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कोडा रेपिड रजि0 न0 UK06AP 4004 ।
2. 60 बोतल (सीवाश रिगल, जैगर मिएस्टर, ग्रेगूस वोदका, ब्लैक लेबल) हरियाणा मार्का ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. आबकारी टीम धनौरा व हसनपुर क्षेत्र ।
2. थाना रजबपुर पुलिस टीम ।

**\*PRO CELL AMROHA\***